



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1787]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2018/वैशाख 28, 1940

No. 1787]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

**का.आ. 1980(अ).**—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इस के पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के पुनः संरेखित भाग, 15.700 कि. मी. से 50.500 कि. मी. तक के भूखण्ड (गुण्डुगोलनु – कोव्वुरु सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार - छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूचि में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आपय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मण्डल अधिकारी, एलूरु को लिखित रूप में किया जाएगा और उस में उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के भू रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के चैनेज कि.मी.15.700 से कि.मी. 50.500 गुंडुगोलनु - कोव्वुरु सेक्शन तक भूमि के लिय अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:

क्रमिक संख्या	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	द्वारकातिरुमला	गुणामपल्ली	275/2	निजी ( )	(ड्राई )	0.5342
2	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	द्वारकातिरुमला	गुणामपल्ली	242/3H1	निजी ( )	(ड्राई )	0.6475
3	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	द्वारकातिरुमला	गुणामपल्ली	242/3I1a	निजी ( )	(ड्राई )	0.3197
4	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	द्वारकातिरुमला	गुणामपल्ली	276/1B1	निजी ( )	(ड्राई )	0.0486
5	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	नॉलाजेरला	दुबचेरला	836/3A2	निजी ( )	(ड्राई )	0.0284
6	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	नॉलाजेरला	दुबचेरला	854/2A	निजी (ग्रामा काण्टम )	(गप )	0.669
7	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	नॉलाजेरला	अनंथापल्ली	592/1	निजी ( )	(ड्राई )	0.0616
8	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	नॉलाजेरला	नॉलाजेरला	291/3A4	निजी ( )	(ड्राई )	0.0059
9	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	भीमडोले	पोलसनीपल्ली	107/1B2	निजी		0.1376

	प्रदेश	गोदावरी				( )	(वेट )	
कुल								<b>2.4525</b>

[फा.सं. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th May, 2018

**S.O.1980 (E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-six laning, etc.), maintenance, management and operation of realigned portion of National Highway No. 16, in the stretch of land from Km.15.700 to Km. 50.500 (Gundugolanu - Kovvuru section) in the district of West Godavari in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority namely, the Revenue Divisional Officer, Eluru in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 15.700 to km 50.500 (Gundugolanu - Kovvuru Section) of National Highway No.16 in the State of Andhra Pradesh

Sno	State	Name of the District	Name of the Sub District Taluk / Mandal	Name of the Village	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Hectare)
1	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Dwarakatirumala	Gunnampalli	275/2	Private ( )	(Dry )	0.5342
2	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Dwarakatirumala	Gunnampalli	242/3H1	Private ( )	(Dry )	0.6475
3	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Dwarakatirumala	Gunnampalli	242/3I1a	Private ( )	(Dry )	0.3197
4	ANDHRA	WEST	Dwarakatirumala	Gunnampalli	276/1B1	Private		0.0486

	PRADESH	GODAVARI				()	(Dry )	
5	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Nallajerla	Dubacherla	836/3A2	Private ( )	(Dry )	0.0284
6	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Nallajerla	Dubacherla	854/2A	Private (Grama Kantam )	(GP )	0.669
7	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Nallajerla	Ananthapalli	592/1	Private ( )	(Dry )	0.0616
8	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Nallajerla	Nallajerla	291/3A4	Private ( )	(Dry )	0.0059
9	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Bhimadole	Polasanipalli	107/1B2	Private ( )	(Wet )	0.1376
<b>Total</b>								<b>2.4525</b>

[F.No. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.